

चाचा का उपहार-2

“चाचा का उपहार-1 तभी चाचा ने दरवाज़ा खटखटाया तो चाची एकदम मुझसे अलग होकर खड़ी हो गई। चाचा आकर हमारे पास बैठ गया और बोला- बेटा राज... हमारे माल पर... [\[Continue Reading\]](#)

”

...

Story By: (sharmarajesh96)
Posted: रविवार, दिसम्बर 28th, 2008
Categories: [चाची की चुदाई](#)
Online version: [चाचा का उपहार-2](#)

चाचा का उपहार-2

चाचा का उपहार-1

तभी चाचा ने दरवाज़ा खटखटाया तो चाची एकदम मुझसे अलग होकर खड़ी हो गई।

चाचा आकर हमारे पास बैठ गया और बोला- बेटा राज... हमारे माल पर ही हाथ साफ़ करने का इरादा है क्या... ? यह मत भूलो बेटा कि यह तुम्हारी चाची है..

मैं वहाँ और देर नहीं बैठ सका। चाचा को थैंक्यू बोल कर मैं बाहर चला गया। मेरे बाहर आते ही चाचा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया।

उस दिन से मेरे तनमन में चाची बस गई थी क्योंकि मैंने इससे पहले इतना मादक कोमल बदन अपनी बाहों में नहीं लिया था। अब तो चाची को देखते ही चाची को अपनी बाहों में भरने को तड़प उठता था। चाची से जब भी नज़र मिलती, चाची मुस्कुरा देती और मेरे अंदर का ज्वालामुखी भड़क उठता था। अब मैं ज्यादा वक्त घर पर ही बिताने लगा था।

कुछ दिन बीते और चाचा अब पूजा की चूत के दर्शन करवाने के लिए मुझे कहने लगा। मुझे भी लगा कि मुझे चाचा का काम कर देना चाहिए क्योंकि चाचा ने अपना वादा पूरा कर दिया था।

पूजा के बारे में बता दूँ.. पूजा वैसे तो तभी ही जवान हुई थी पर साली की चूचियाँ अच्छी खासी उठ गई थी और वो गांव के एक दो लड़कों के साथ चुदाई का खेल भी खेल चुकी थी। बहुत सुन्दर तो नहीं थी पर अपने शरीर की बनावट के कारण बहुत आकर्षक लगती थी और इसी कारण गांव के बहुत से लड़के जिनमें चाचा भी शामिल था उसकी चूत मारने को तड़पते थे। वो मुझ से बात कर लेती थी या यूँ कहें कि वो मुझ पर लाइन मारती थी और

अक्सर मेरे साथ छेड़छाड़ भी कर लेती थी पर मैं उसको घास नहीं डालता था।

एक शाम पूजा मेरे घर आई तो मैंने उसको पूछ लिया- चूत देने का इरादा है क्या ?

वो तो पहले से ही तैयार थी मुझ से चुदने को। उसने तुरंत हाँ कर दी तो मैंने उसे रात को मेरे कमरे में आने को कहा। यहाँ मैं बता दूँ कि मेरे घर और पूजा के घर का फासला थोड़ा सा ही है। हमारे घरों की छत भी आपस में मिलती है। वो आने का कह कर चली गई। मेरे दिल में अब नई योजना बनने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अपने कमरे में आज चाचा को भेज देता हूँ और खुद चाची के पास सो जाता हूँ अगर चाची मान जाए तो।

मैं चाचा के पास गया और उसे खुशखबरी दी कि मैंने उसका आधा काम कर दिया है तो वो बहुत खुश हुआ।

मैंने कहा- मैंने पूजा को अपने कमरे में बुलाया है पर अब दिक्कत यह है कि हम दोनों तो पूजा के साथ कमरे में रह नहीं सकते तो अब मैं कहाँ सोने जाऊँगा।

मैंने चाचा को समझा दिया था की वो मुझसे चुदने आ रही है तो लाइट मत जलाना नहीं तो भांडा फूट जाएगा और बदनामी होगी सो अलग। और चाची तुम्हारा क्या हाल करेगी यह भी सोच लेना।

‘तू चिंता मत कर, मैं सब संभल लूँगा।’

‘पर चाचा मेरा क्या होगा... मैं कहाँ सोऊँगा आज रात?’

‘तू मेरे कमरे में सो जाना! चाचा पूजा की चूत मिलने के उम्मीद से ही उत्तेजित हो रहा था।’

‘पर अगर चाची ना मानी तो...?’

‘उसको मैं बोल दूँगा कि मुझे आज रात खेत पर जाना है फिर तू सो जाना उसके पास।’

मुझे चाची के मानने की उम्मीद नहीं लग रही थी पर फिर सोचा देखेगे जो होगा। अगर

मान गई तो आज रात अपने सपनों की रानी के पास सोने का मौका मिल जाएगा। यह सोच कर मैं भी उत्तेजित होने लगा था और इसका असर मेरे पजामे में पता लगने लगा था।

खैर रात हुई और चाचा खेत में जाने का बोल कर चला गया। मुझे मालूम था कि वो कुछ देर बाद ही आकर मेरे कमरे में लेट गया था।

मैं चाची के पास गया और चाची से बातें करने लगा। चाची ने अपना बचा हुआ काम खत्म किया और फिर मेरे पास बैठ कर वो भी मुझ से बातें करने लगी। इधर उधर की बातें करते हुए मेरी नज़र चाची की पहाड़ियों पर थी जो साँसों के साथ उठ बैठ रही थी। चाची ने पल्लू नीचे किया हुआ था जिसके कारण चाची की चूचियों के बीच की घाटी नज़र आ रही थी और मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी।

अब मुझसे भी सहन नहीं हो रहा था। मैंने चाची के थोड़ा नजदीक जाकर पूछ लिया- चाची, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ ?

‘हाँ..हाँ बोल ना !’

‘चाची..बात यह है कि...’

‘अरे बोल ना ! शरमा क्यों रहा है ?’

‘चाची... बात यह है कि जब से मैंने तुम्हारे होंठों का रस चखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है.. सारी सारी रात आँखों के सामने तुम ही तुम घूमती रहती हो.. लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।’

चाची कुछ नहीं बोली बस मेरी तरफ देखती रही।

मैंने कुछ साहस जुटा कर चाची के हाथ को पकड़ कर सहलाना शुरू किया और खिसक कर चाची के बिल्कुल पास चला गया। अब मेरे और चाची के बीच की दूरी लगभग खत्म हो

चुकी थी। ना चाची कुछ बोल रही थी और ना मैं ही कुछ बोल पा रहा था। और फिर ना जाने कब मेरे होंठ चाची के होंठों से चिपक गए। चाची और मैं एकदम मदहोश होकर एक दूसरे में खोने लगे थे। चाची ने आँखें बंद कर ली थी और किस करने में मेरा पूरा सहयोग कर रही थी।

चाची के होंठ चूमते-चूमते मेरा हाथ चाची की मस्त चूचियों को सहलाने लगा तो चाची का हाथ भी सरक कर मेरे पजामे के ऊपर से ही मेरे लण्ड महाराज को ढूँढने लगा। चाची के स्पर्श मात्र से मेरा लण्ड खड़ा होकर पजामा फाड़ने को तैयार हो गया था।

‘यह गलत है राज..’ कहकर अचानक चाची मुझ से अलग हो गई।

पर मैं अब रुक नहीं सकता था।

चाची बोली- तू मेरे बेटे समान है राज... मैं तेरी चाची लगती हूँ। मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं कर सकती।

‘चाची अब मैं नहीं रुक सकता...अब मत तड़पाओ वरना मर जाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।’

चाची ने मेरी बात सुन कर मुझे अपने गले से लगा लिया और बोली- राज प्यार तो मैं भी करती हूँ तुम्हें पर सोचो, मैं तुम्हारी चाची हूँ।

‘चाची कुछ देर के भूल जाओ कि तुम मेरी क्या लगती हो, इस समय तुम सिर्फ एक औरत हो और मैं एक मर्द जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और प्यार में सब कुछ जायज है।’

मैंने चाची का चेहरा अपने हाथों में लिया और एक बार फिर अपने होंठ चाची के रसीले होंठों पर रख दिए। गर्म तो चाची भी पूरी हो चुकी थी और वो भी अब रुक नहीं सकती थी। चाची ने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया और मेरे होंठों को काटने लगी। मेरे हाथ एक बार फिर चाची की मक्खन जैसी मुलायम चूचियों को सहलाने लगे और चाची के ब्लाउज के

बटन खोलने लगे ।

कुछ ही क्षण बाद चाची की बड़ी बड़ी चूचियाँ आजाद होकर मेरी आँखों के सामने सर तन कर खड़ी हो गई । क्या शानदार चूचियाँ थी चाची की । एक दम खड़े खड़े चुचूक, मस्त गोलाई जैसे किसी ने दूध के दो लोटे लगा दिए हों छाती पर ! इन चूचियों पर तो सारे गांव के मुस्टंडे फ़िदा थे और इनके बारे में सोच सोच कर आहें भरते थे और मुठ मारते थे ।

मैंने चाची का भूरे रंग का चुचूक मुँह में लिया और चूसने लगा । चाची की सीत्कारें निकलने लगी थी । मैं तो मस्त हुआ चाची की चूचियों का रसपान कर रहा था । चाची आहें भर रही थी और मेरे बालों में हाथ फेर रही थी । चाची की एक चूची मेरे मुँह में और दूसरी मेरे हाथ में थी । चूची इतनी बड़ी थी कि मेरे हाथ में पूरी नहीं समा रही थी । मैं उँगलियों में पकड़ कर चूची के अग्र-भाग को मसल रहा था जिस कारण चाची और भी ज्यादा मस्त होती जा रही थी ।

फिर मैंने चाची के पेटीकोट का नाड़ा ढीला कर दिया तो पेटीकोट साड़ी समेत जमीन पर गिर गया और चाची नीचे से भी नंगी हो गई क्योंकि चाची ने नीचे कुछ नहीं पहना था ।

चाची की चूत पर एक भी बाल नहीं था । चाची की चिकनी चूत देख कर मेरा लण्ड फटने को हो गया था । मैंने अब चूची को छोड़ा और नीचे झुक कर अपना मुँह चाची की चूत पर लगा दिया । चाची की चूत से रस टपक रहा था जो साफ़ संकेत था कि चाची बहुत गर्म हो चुकी थी ।

चाची ने अपनी एक टाँग ऊपर उठा कर चूत चाटने में मेरी मदद की । मैं चाची की चिकनी चूत को अपनी जीभ से चाट रहा था और चाची मस्त हो सिसकारियाँ भर रही थी ।

कुछ देर चूत को चाटने के बाद अब मेरा मन भी लण्ड चुसवाने को कर रहा था । मैं खड़ा

हुआ तो चाची ने बिना देर किये मेरे सारे कपड़े उतार दिए और नीचे बैठ कर मेरा लण्ड मुँह में भर लिया और जीभ घुमा घुमा कर चाटने और चूसने लगी। अब सीत्कारें निकलने के बारी मेरी थी। चाची इतना अच्छा चूस रही थी कि मुझे एक दो मिनट के बाद ही लगने लगा कि अब तो मेरा निकल जाएगा। मैं अभी मजा खराब नहीं करना चाहता था। मैंने लण्ड चाची के मुँह से निकाल लिया तो चाची ऐसे इठलाने लगी जैसे किसी बच्चे का लोलीपॉप किसी ने छीन लिया हो।

मैंने चाची को उठा कर बिस्तर पर लिटा दिया और चाची की टाँगें फैला कर चूत को चाटने लगा।

चाची बोली- राज, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा! जल्दी से अपना मूसल डाल दे मेरी ओखली में.. और कूट दे सारा धान और निकाल दे सारा तेल मेरे राजा..

मैंने अपना लण्ड चाची की चूत पर टिकाया और एक जोरदार धक्का लगा कर आधा से ज्यादा लण्ड चाची की पनियाई हुई चूत पर जड़ दिया। चाची मस्ती और दर्द के मिले जुले आनन्द के साथ चीख पड़ी- फाड़ दी रे बहन चोद तूने तो मेरीईईई... धीरे धीरे कर राजा... तेरा लण्ड बहुत मोटा है रे..

‘कैसी बात कर रही हो चाची... चाचा का भी मेरे जितना ही मोटा तो है..’

‘हाँ.. मोटा तो है पर तेरा लण्ड कुछ ज्यादा कड़क है रे... पूरी चूत को रगड़ कर अंदर घुसा है... अब डाल दे बाकी का भी जल्दी से और चोद डाल अपनी चाची को मेरे राजा।’

मैंने एक दो धक्के और लगाए और पूरा लण्ड चाची की चूत में फिट कर दिया। लण्ड सीधा चाची की बच्चेदानी से जाकर टकराया तो चाची मस्ती के मारे उछल पड़ी और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। यह एहसास चाची को आज पहली बार हुआ था, यह मुझे चाची ने

चुदाई के बाद बताया ।

पूरा लण्ड घुसने के बाद मैंने लण्ड को सुपारे तक निकाला और फिर जड़ तक ठोक दिया चूत में । और फिर तो जैसे बिस्तर पर भूचाल आ गया । धक्के पर धक्के लगने लगे । अब नीचे से चाची गांड उठा उठा कर लण्ड ले रही थी और ऊपर से मैं भी लण्ड को पूरा निकाल कर फिर से पूरे जोश के साथ चूत में घुसा देता । अब मैं और चाची बात नहीं कर रहे थे बस चुदाई का मजा ले रहे थे । कमरे में सिर्फ मस्ती भरी आहें और सिसकारियाँ गूँज रही थी । धक्के इतनी जोर से लग रहे थे कि बेड भी चूँ-चूँ करने लगा था, धप-धप फच-फच की आवाज कमरे के वातावरण को मादक बना रही थी ।

मैंने चाची की केले के तने जैसी चिकनी चिकनी टाँगे अपने कंधे पर रखी हुई थी और चाची की चूत पर जोर जोर से धक्के लगा रहा था ।

करीब दस मिनट के बाद चाची का बदन अकड़ने लगा और वो अपनी टाँगें मेरी कमर पर लपेट कर जोर जोर से गांड उछालने लगी । मैं समझ गया था कि अब चाची झड़ने वाली है, सो मैंने भी धक्को की स्पीड थोड़ी तेज कर दी और फिर एक चीख के साथ चाची झड़ने लगी । चाची की चूत से सरसराता हुआ चूत रस मेरे अंडकोष को भिगो रहा था ।

चाची झमाझम करके झड़ी थी और झड़ने के बाद वो ढीली पड़ गई पर मेरा अभी पानी नहीं निकला था, मैंने धक्के मारने चालू रखे तो चाची बोली- रा..ज.. ला अपना लण्ड मेरे मुँह में डाल ! मैं तेरा पानी निकाल देती हूँ... चूत तो पूरी निचोड़ दी तूने... सारा रस निकाल दिया आज तो... बहुत मस्त चुदाई करता है तू तो ! तेरे चाचा से भी अच्छी...

मैं अपनी तारीफ सुन कर खुश हो गया और लण्ड को चूत से निकाल कर चाची के मुँह में दे दिया ।

चाची लण्ड चूसने में तो एकदम माहिर थी। अगले दो मिनट में ही मेरा लण्ड भी पिचकारी छोड़ने को मचल उठा और फिर मैं भी चाची के मुँह में ही झड़ गया। सच में आज पहले से कहीं ज्यादा माल निकला था मेरे लण्ड से। यह सब चाची की करामात थी। पूरा माल गटकने के बाद चाची ने मेरा लण्ड अपने मुँह से बाहर निकाल और चाट चाट कर पूरा साफ़ किया।

हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट कर एक दूसरे को चूमने लगे।

फिर इधर उधर की बातें और कुछ ही देर बाद जब लण्ड फिर से खड़ा हो गया तो मैंने एक बार फिर चाची की टाँगें उठाकर लण्ड चूत में घुसेड़ दिया और फिर तो सुबह तक मैं और चाची नंगे ही एक दूसरे से लिपटे रहे। सुबह तक चार बार मैंने और चाची ने चुदाई का आनन्द लिया।

सुबह पांच बजे मैं उठा और उठ कर अपने कमरे में गया यह देखने कि चाचा का क्या हाल है तो देखा चाचा खराटें भर रहा था।

मैंने चाचा को उठाया और रात के बारे में पूछा तो मेरी हँसी छूट गई क्योंकि पूजा तो रात को आई ही नहीं थी।

मैंने चाचा को थैंक्यू बोला तो चाचा मेरे मुँह की तरफ देखने लगा। शायद वो समझ गया था कि मैं उसको किस चीज़ के लिए थैंक्यू बोल रहा हूँ।

मुझे चाचा का उपहार बहुत पसंद आया था। उस दिन के बाद चाचा के और मेरे बीच की बची-खुची दूरियाँ भी खत्म हो गई और फिर हमने जैसे हम बाहर एक ही लड़की के साथ दोनों सेक्स कर लेते थे चाची के साथ भी बहुत बार सेक्स किया। चाची भी दो दो मदमस्त सांडो के लण्ड से मजा लेकर खुश थी और आज भी बहुत खुश है...

आपका राज शर्मा

मेल जरूर करना।

sharmarajesh96@gmail.com





Other sites in IPE

Antarvasna Gay Videos



Welcome to the world of gay porn where you will mostly find Indian gay guys enjoying each other's bodies either openly for money or behind their family's back for fun. Here you will find guys sucking dicks and fucking asses. Meowing with pain mixed with pleasures which will make you jerk you own dick. Their cums will make you cum.

Pinay Sex Stories



Araw-araw may bagong sex story at mga pantasya.

Indian Porn Live




Go and have a live video chat with the hottest Indian girls.

FSI Blog




Every day FSIBlog.com brings you the hottest freshly leaked MMS videos from India.

Indian Sex Stories



The biggest Indian sex story site with more than 40 000 user submitted sex stories. Go and check it out. We have a story for everyone.

Desi Tales



Indian Sex Stories, Erotic Stories from India.